

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 जनवरी 2015—पौष 29, शक 1936

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2015

क्र. एफ-2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति, [समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक 1)] की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 15 सितम्बर 2014 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित दो विभागों की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

#### अनुसूची—“एक”

- (1) भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. एस. निरंजन, प्रमुख सचिव.

#### अनुसूची—“दो”

#### निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन

विभाग का नाम (1) भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के स्वी-कृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी.	सांख्यिकी अधिकारी.	01	01	-	-	-	-	-	-
	योग	01	01	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
तृतीय श्रेणी.	लेब सहायक	10	10	-	-	-	-	-	तृतीय श्रेणी के कुल 89 पदों में 05 पद बनते हैं, जो दर्शाये अनुसार चिन्हांकित किया गया है.
	वाहन चालक	19	19	-	-	-	-	-	
	तकनीकी सहायक	10	10	-	-	-	-	-	
	निम्न श्रेणी लिपिक	14	14	01	01	-	-	01	
	ड्रेसर	16	16	-	-	-	-	-	
	एम.एस.डब्ल्यू	13	13	-	-	-	-	-	
	डाटा एन्ट्री आपरेटर-सह रजिस्ट्रेशन क्लर्क.	02	02	02	01	-	01	02	
	टेलीफोन आपरेटर	05	05	02	-	02	-	02	
	योग	89	89	05	02	02	01	05	
चतुर्थ श्रेणी.	लेब अटेंडेंट	13	13	01	01	-	-	01	चतुर्थ श्रेणी के कुल 61 पदों में 03 पद बनते हैं, जो दर्शाये अनुसार चिन्हांकित किया गया है.
	माली	02	02	-	-	-	-	-	
	दफ्तरी	01	01	-	-	-	-	-	
	भृत्य	09	09	-	-	-	-	-	
	धोबी	03	03	-	-	-	-	-	
	नाई	01	01	-	-	-	-	-	
	स्वीपर	32	32	02	-	01	01	02	
	योग	61	61	03	01	01	01	03	

**नोट :-** प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी लोक स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं चिकित्सा अधिकारी के 152 पद स्वीकृत हैं एवं सभी पद स्वास्थ्य विभाग में भरे हुये हैं एवं उपरोक्त समस्त पद गैस राहत चिकित्सा इकाइयों के हैं.

#### विभाग का नाम (2) सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
तृतीय श्रेणी.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	03			-	-	-	-	सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर 2011 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना) के तृतीय श्रेणी के पदों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें डॉटा एंट्री आपरेटर के स्वीकृत 08 पदों में से 06 पद त्रुटिवश श्रवण बाधित निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित किये गये हैं. अतः
	कम्प्यूटर सहायक.	02			-	-	-	-	
	डाटा एंट्री आपरेटर.	08			-	-	-	-	
	सहायक प्रोग्रामर	03			-	-	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
सहायक ग्रेड-3	446				08	08	08	24	इन 6 पदों को तृतीय श्रेणी के ही सहायक ग्रेड-3 में हस्तांतरित करने हेतु विचार किया गया. चूंकि इसमें तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पदों में परिवर्तन करना है और किसी प्रकार की छूट नहीं देनी है. इसलिये समिति द्वारा प्रस्ताव मान्य किया गया. दर्शाये अनुसार पद चिन्हांकित किये जाते हैं.
स्टेनो टायपिस्ट	56		32		03	-	-	03	
टेलीफोन आपरेटर	03				-	02	-	02	
लिफ्टमेन	08				-	-	-	-	
उपकेन्द्र परिचर	04				-	-	01	01	
जिल्दसाज	02				-	-	02	02	
हाउसकीपर	01				-	-	-	-	
रोकड़िया-कम-सहायक.	01				-	-	-	-	
योग	537	537	32	11	10	11	32	-	

सामान्य प्रशासन विभाग ( अधीक्षण शाखा )

चतुर्थ श्रेणी.	भृत्य	441	441	27	09	09	09	27	-
योग		441	441	27	09	09	09	27	-

व्ही. एस. निरंजन, प्रमुख सचिव.